



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2005/माघ 27, 1926

No. 161]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2005/MAGHA 27, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

का.आ. 214(अ).— यतः कुछ परिवर्तन/परिवर्धन, जिन्हें केन्द्र सरकार दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के घरेलु उद्योगों की सूची (अनुलग्नक-III क) में करने का प्रस्ताव करती है दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4.11.2004 की सार्वजनिक सूचना का.आ. 1231(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (3) द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन/परिवर्धन पर यथापेक्षित आपत्तियां/ सुझाव उक्त सूचना जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित परिवर्तनों/परिवर्धनों के बारे में 63 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने तथा अपनी सिफारिश देने के लिए आयुक्त (नियोजन), डीडीए की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मास्टर प्लान 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

**उपांतरण:**

दिनांक 01.8.1990 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 96 पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएं :-

( i ) दिनांक 16.8.2004 की राजपत्रित अधिसूचना सं० का.आ. 928 (अ), जिसे 17 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के क्रम में अनुलग्नक-III क में दी गई घरेलू उद्योगों की सूची में निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएं :-

क्र.सं.	उद्योग का नाम
1	आटा चक्कियां
2	बेकैलाइट स्विचों की असेम्बली
3	मापन उपकरणों (मरकरी और खतरनाक सामग्रियों से संबंधित कार्य करने को छोड़कर ) की असेम्बली और मरम्मत
4	क्ले और प्लास्टर ऑफ पेरिस से माडलिंग
5	डेयरी उत्पाद उदाहरणार्थ क्रीम, घी, पनीर आदि
6	ड्राई क्लीनिंग (बड़े वर्कशॉप्स को छोड़कर )
7	इनेमेलिंग विटरियस (कोयला का उपयोग किए बिना )
8	खस टाटी
9	दूध से क्रीम निकालना
10	चूट उत्पादों का निर्माण
11	बिन्दी उत्पादन
12	ड्राईगों और डिजाइनों को ब्रश करने सहित ड्राईगों की फोटो कापियां करना
13	शेम्पों की पैकेजिंग
14	हेयर ऑयल की पैकेजिंग
15	रबर की मोहरें
16	स्क्रीन प्रिंटिंग
17	बर्तन धोने के पाउडर ( केवल मिक्सिंग और पैकेजिंग )

( ii ) दिनांक 16.8.2004 की राजपत्र अधिसूचना सं० का.आ. 928 (अ) जिसे 17 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में आंशिक संशोधन करके निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं :-

(क) मद सं० ( xviii ), ( xx ) और ( xxi ) पर उल्लिखित उद्योगों की नामावली में निम्नवत परिवर्तन किए जाएं :-

मद सं०	संशोधित नाम
xviii	इलेक्ट्रिकल गेडगेट्स, कूलर/हीटर आदि की असेम्बली और मरम्मत
xx	सिलाई मशीनों की असेम्बली और मरम्मत
xxi	टाइपराइटर (फॉट कार्टिंग को छोड़कर ) की असेम्बली और मरम्मत

(ख) गैर अनुमेय गतिविधियों की सूची में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को शामिल किया जाए :-

- ( i ) कोयला जलाना
- ( ii ) सी एफ सी गैसों का प्रयोग

(ग) रसायनों के भंडारण के संबंध में धारा को निम्नवत संशोधित किया जाए :-

खतरनाक रसायन का उत्पादन, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची-1 और / अथवा 11 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत सूचीबद्ध रसायनों का भंडारण करना प्रतिबंधित होगा ।

[सं. के-13011/6/2004-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2005

**S.O. 214(E).**— Whereas certain additions/ alterations which the Central Government proposed to make in the list of household industries (Annexure IIIA) of the Master Plan for Delhi 2001 were published in the Gazette of India, Extraordinary vide Public Notice S.O. No. 1231 (E) dated 4.11.04 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions on the proposed additions/ alterations as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 63 objections/suggestions were received with regard to the proposed additions/ alterations and a Committee was constituted under the Chairmanship of Commissioner (Plg.), DDA to consider the objections/ suggestions and give its recommendation. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan 2001;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification :**

On page 177 of the Gazette of India, dated 01.08.1990, the following additions be made:

- (i) In continuation of Gazette Notification No. S.O. 928 (E) dated 16.8.2004 which was published in the Gazette of India on 17<sup>th</sup> August, 2004 following additions be made in the list of Household Industries in Annexure-III A:

S.No	Name of the Industry
1)	Atta Chakkies
2)	Assembly of Bakelite Switches
3)	Assembly and repair of measuring instruments (excluding handling of Mercury and hazardous materials).
4)	Clay and Modeling with Plaster of Paris
5)	Dairy products e.g. cream, ghee, paneer, etc.
6)	Dry Cleaning (excluding big workshops)
7)	Enameling Vitreous (without use of coal)
8)	Khus tattis
9)	Milk Cream Separation
10)	Manufacture of Jute products
11)	Manufacture of Bindi
12)	Photo copying of drawings including enlargement of drawings and designs.
13)	Packaging of Shampoos
14)	Packaging of Hair Oil
15)	Rubber Stamps
16)	Screen Printing
17)	Utensil washing powder (only mixing and packaging)

- ii) In partial modification of Gazette Notification No. S.O. 928 (E) dated 16.8.2004 which was published in the Gazette of India on 17<sup>th</sup> August, 2004 following changes are made

- (a) The Nomenclature of industries mentioned at Item Nos. (xviii), (xx) and (xxi) be changed as under:-

Item No.	Revised nomenclature
xviii	Assembly and repair of electrical gadgets, cooler/ heater, etc.
xx	Assembly and repair of sewing machines
xxi	Assembly and repair of typewriter (excluding Font casting)

b) Following processes be included in the list of non-permissible activities :-

- i) Burning of Coal
- iii) Use of CFC Gases

c) The clause regarding storage of chemicals be modified as under :-

"Storing of chemicals listed under Schedule I and/ or II of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 and Public Liability Insurance Act, 1990 shall be prohibited".

[No. K-13011/6/2004-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.